



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7।

नई दिल्ली, मार्च 25—मार्च 31, 2012, शनिवार/चैत्र 5—चैत्र 11, 1934

No. 7।

NEW DELHI, MARCH 25—MARCH 31, 2012, SATURDAY/CHAITRA 5—CHAITRA 11, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2012

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना आयुध कोर (समूह 'ग' भण्डारण कर्मचारी वृन्द) भर्ती नियम, 1986 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सेना आयुध कोर में ज्येष्ठ भंडारी और भंडारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आयुध कोर (समूह 'ग' भण्डारण कर्मचारी वृन्द) अराजपत्रित पदों की भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह सुमाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रिगायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ भंडारी	*959 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', गैरऔद्योगिक अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	18 से 27 वर्ष (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की दशा में और पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त संस्था	नहीं	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(7)

से सामग्री प्रबंध में डिप्लोमा या इंजीनियरी की किसी भी शाखा में डिप्लोमा

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

90% सीधी भर्ती द्वारा

10% प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे भंडारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष तक नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति : (परीक्षा हटाने/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

- | | |
|---|----------|
| 1. आयुध सेवा महानिदेशक, सेना मुख्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट बिग्रेडियर की पंक्ति का अधिकारी | —अध्यक्ष |
| 2. आयुध सेवा महानिदेशक, सेना मुख्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल की पंक्ति का एक अधिकारी | —सदस्य |
| 3. सेना आयुध कोर से भिन्न सशस्त्र सेना के कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल/मेजर की पंक्ति का एक अधिकारी | —सदस्य |
| 4. आयुध महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट सेना मुख्यालय का एक अधिकारी | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. भंडारी	*383 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', गैरऔद्योगिक अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)

(8)

(9)

लागू नहीं होता

आयु : नहीं
शैक्षिक अर्हताएं : हाँ

नहीं

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

चयन एक ऐसी विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो वेतन बैंड-1, में 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में, के ऐसे

(11)

समूह "ग" कर्मचारियों तक सीमित होगा जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 या समतुल्य न्यूनतम अर्हता रखते हो।

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

1. आयुध सेवा महानिदेशक, सेना मुख्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट बिग्रेडियर की पंक्ति का अधिकारी —अध्यक्ष
2. आयुध सेवा महानिदेशक, सेना मुख्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल की पंक्ति का एक अधिकारी —सदस्य
3. सेना आयुध कोर से भिन्न सशस्त्र सेना के कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल/मेजर की पंक्ति का एक अधिकारी —सदस्य
4. आयुध महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट सेना मुख्यालय का एक अधिकारी —सदस्य

[फा. सं. ए/23731/आर आर/एस के/ओ एस-8सी (ii)/146/डी (नियुक्ति)]
अंगना राम, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th March, 2012

S.R.O. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Army Ordnance Corps (Group 'C' Storekeeping Staff) Recruitment Rules, 1986, in so far they relate to the posts of Senior Storekeeper and Storekeeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Storekeeper and Storekeeper in the Army Ordnance Corps, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Ministry of Defence, the Army Ordnance Corps, (Group 'C' Storekeeping Staff) Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay and scale of pay.—The number of the said posts, their classification pay band and Grade Pay and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Store Keeper	959* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, Rs. 5200— 20200 and Grade Pay Rs. 2400	Non-selection	Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government and further relaxation for five year as in the case of Schedule Caste and Schedule Tribe). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Sub-Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In respect of posts the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date up to which the employment exchanges are asked to submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruitment			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Graduate in any discipline from any recognized University or Diploma in Material Management or Diploma in Engineering in any Discipline from any recognized Institutions.			No		Two years for direct recruits

337 9712-2

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made			
(10)		(11)			
90% by Direct Recruitment. 10% by promotion.		Promotion : Storekeepers PB-1, Rs. 5200-20200 and Grade Pay Rs. 1900 with eight years of regular service in the grade.			
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.			
(12)		(13)			
Departmental Promotion Committee consisting of :—		Not applicable.			
1. Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General of Ordnance Services, Army Headquarters.	—Chairman				
2. An officer of the rank of Colonel/Lt. Colonel nominated by the Director General of Ordnance Services, Army headquarters.	—Member				
3. An officer of the rank of Colonel/Lt. Colonel/ Major of Army/Services other than Army Ordnance Corps.	—Member				
4. An officer of Army Headquarters nominated by the Director General of Ordnance Services.	—Member				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Storekeeper	383* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, Rs. 5200—20200 and Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Not applicable
(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Age : No Educational Qualification : Yes		No	
(10)		(11)			
By promotion		Promotion : Selection shall be made through a Departmental Competitive examination confined to such Group 'C' employees in the PB-1, Rs. 5200-20200 and Grade Pay Rs. 1800 who have rendered at least three years' regular service in the grade and who possess a minimum qualification, of 10+2 or equivalent from a recognized Board or University.			

(12)

(13)

Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

1. Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General of Ordnance Services, Army Headquarters, —Chairman
2. An officer of the rank of Colonel/Lt. Colonel nominated by the Director General of Ordnance Services, Army Headquarters. —Member
3. An officer of the rank of Colonel/Lt. Colonel/Major of Arms/Services other than Army Ordnance Corps. —Member
4. An officer of Army Headquarters nominated by the Director General of Ordnance Services. —Member

[F. No. A/23731/RR/SK/OS-8C (ii)/146/D (Appts)]

ANGNA RAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2012

का.नि.आ. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा संपदा संगठन में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा संपदा सेवा (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड व ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, समूह 'ग'	16* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग', अराजपत्रित, लिपिक-वर्गीय)	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200—20200 रु., ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच की आयु तक (सामान्य श्रेणी के सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीद-

(6)

वारों के लिए आयु 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(7)

(8)

(9)

(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कक्षा बारह उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) डाटा एंट्री कार्य में प्रति-घंटा/8000 की डिप्रैशन्स से अन्यून की गति हो।

लागू नहीं होता

दो वर्ष

टिप्पणी 1 : डाटा एंट्री कार्य में प्रतिघंटा/8000 की डिप्रैशन्स की गति जांच इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित की जाएगी।

टिप्पणी 2 : ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के अधीन तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा लगातार की है।

टिप्पणी 3 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (सेवा में पुष्टि के संबंध में)

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

1. अपर महानिदेशक, रक्षा संपदा

—अध्यक्ष

2. निदेशक, संबंध रक्षा संपदा निदेशालय, रक्षा संपदा

—सदस्य

3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय

—सदस्य

[फा. सं. 105/22/प्रशासन/र.सं./10/78/र.(नि.)]

अंगना राम, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 2012

S.R.O. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator in Defence Estates Organization, under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Estates Service Data Entry Operators, (Group 'C') Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification and pay band and Grade pay or Scale of pay.—The number of post, its classification and pay band and Grade Pay or scale of pay in the different grade shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters related thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay.	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Data Entry Operator	16* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial)	Pay Band-I, Pay Scale Rs. 5200-20200, Grade Pay Rs. 2800	Non applicable	Between 18 to 27 years of age (relaxable for Government servant up to 40 years in case of general candidates and 45 years in case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe Candidates).
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
(a) 12th Class pass or equivalent from recognized Board. (b) should possess a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work.			Not applicable		Two years

887 9:12-3

(7)

Note 1.—The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the Electronic Data Processing Machine(s) by the Competent Authority.

Note 2.—Candidate who have rendered atleast three years regular continuous service under Central Government.

Note 3.—The crucial date of determining the age limit shall be as advertised by the Appointing Authority.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of deputation or absorption, grades from which deputation or transfer to be made

(10)

(11)

By direct recruitment

Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition (for confirmation in service)

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted

(12)

(13)

Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—

Not applicable.

1. Additional Director General, Defence Estates —Chairman
2. Director, Defence Estates of the concerned Directorate, Defence Estates —Member
3. Under Secretary, Ministry of Defence —Member

[F. No. 105/22/ADM/DE/10/78/D (Appts.)]

ANGNA RAM, Under Secy.

(रानीखेत छावनी बोर्ड)

रानीखेत, 21 मार्च, 2012

का.नि.आ. 19.—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 69 की अपेक्षानुसार छावनी सूचना संख्या 243/पथकर/ए/11 तारीख 12 सितम्बर, 2011 के अधीन रानीखेत छावनी की सीमा के भीतर पथकर के उत्पादन की बावत प्रारूप जनसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उन व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त सूचना 12 सितम्बर, 2011 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जन साधारण से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 66 के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से छावनी बोर्ड, रानीखेत, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 8(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1990 को उन बातों के सिवाय, जिनको ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करता है।

[फा. सं. 53/4/सी/डीई/10]

ओमपाल सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी बोर्ड, रानीखेत

[फा. सं. 10 (26) 2011/रक्षा (क्यू एण्ड सी)]

सुशील कुमार झा, अवर सचिव

(RANIKHET CANTONMENT BOARD)

Ranikhet, the 21st March, 2012

S.R.O. 19.—Whereas a draft public notice in respect of abolition of toll tax within the limits of Ranikhet Cantonment was published under Cantonment Notice No. 243/Toll/A/11, dated 12th September, 2011, as required by Section 69 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And, whereas the said notice was made available to the public on 12th September, 2011;

And, whereas no objections or suggestions were received from the general public on the said draft within thirty days from the date of publication of the said notice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2) of Section 66 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Cantonment Board, Ranikhet with the previous sanction of the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Defence number S.R.O. 8 (E), dated the 11th April, 1990 except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[F.No. 53/4/C/DE/10]

OMPAL SINGH, Chief Executive Officer,
Cantonment Board, Ranikhet.

[F.No. 10(26)]/2011/D(Q & C)]

SUSHIL KUMAR JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2012

का.नि.आ. 20.—केन्द्रीय सरकार, वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अनुच्छेद 189 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायु सेना नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुसेना (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वायुसेना नियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में;

(क) (नियम-71 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा,) अर्थात् :—

“(1) ऐसे प्रत्येक आरोप पर जिसे अभियुक्त पर आरोपित किया गया है, निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और इन नियमों में उपबन्धित सिवाय “दोषी होने” या “दोषी न होने” निष्कर्ष के रूप में अभिलिखित किया जाएगा।

(1क) प्रत्येक आरोप के निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात्, न्यायालय उसके समर्थन में संक्षिप्त कारण देगा।

(1ख) जज अधिवक्ता या यदि वह नहीं है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे संक्षिप्त कारणों को कार्यवाहियों में अभिलिखित करेगा या कराएगा।

(1ग) उपर्युक्त अभिलेख पीठासीन अधिकारी या जज अधिवक्ता, यदि कोई हो, द्वारा हस्ताक्षर तारीख दर्शित करते हुए किया जाएगा;”

(ख) [नियम 73 के उप-नियम (1) में “ऐसी अवधि के बारे में जिसमें वह किसी दण्डादेश के अधीन गिरफ्तार या परिरोध में रहा हो” शब्दों के पश्चात् “या वायुसेना आदेश के अधीन रहते हुए, के अनुभाग में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा परिनिदा का अधिनिर्णय करेगा” शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे।

(ग) नियम 108 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(3) कोई काउंसिल, जिसे भारत के किसी न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवमानना करने का दोषी पाया गया हो, उसे किसी साधारण और जिला कोर्ट मार्शल में अभियोजक के निमित्त उपसंज्ञात होने, कार्य करने या अभिवचन करने और अभियोग लगाने से तब तक अयोग्य होगा जब तक उसने अपने आपको अवमानना से मुक्त न कर लिया हो।”

(3क) जब विचारण भारत से भिन्न किसी अन्य देश में है और यदि काउंसिल को उस देश के न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया हो, तो उस काउंसिल को तब तक अयोग्य कर दिया जाएगा जब तक कि वह अपने आपको अवमानना से मुक्त न कर लेगा।”

(घ) नियम 129 के उप नियम (ग) में “दण्ड संहिता, 1898 (1898 की 8) के धारा 476” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) के अनुच्छेद 340” के शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[मिसिल सं. वा. से. मु./25503/5/विधि (एम एफ) पीसी-V]

अंजलि सिंह, निदेशक

टिप्पणी :— मूल नियम, भारत के राजपत्र सं. का.नि.आ. 310, तारीख 24 सितम्बर, 1969 द्वारा प्रकाशित हुए थे । नियम पश्चात्पूर्वी निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :—

- (क) का.नि.आ. सं. 358, तारीख 08 जुलाई, 1970
- (ख) का.नि.आ. सं. 83, तारीख 19 दिसम्बर, 1971
- (ग) का.नि.आ. सं. 24(अ), तारीख 15 जून, 1974
- (घ) का.नि.आ. सं. 186, तारीख 02 जुलाई, 1982
- (च) का.नि.आ. सं. 68, तारीख 20 जनवरी, 1986
- (छ) का.नि.आ. सं. 5(अ), तारीख 08 नवम्बर, 1990
- (ज) का.नि.आ. सं. 127, तारीख 27 जुलाई, 1995
- (झ) का.नि.आ. सं. 47, तारीख 27 फरवरी, 1997

New Delhi, 13th March, 2012

S.R.O. 20.—In exercise of powers conferred by Section 189 of the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Air Force Rules, 1969 namely :—

1. (1) These rules may be called the Air Force (Amendment) Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Air Force Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said rules)---
- (a) in rule 71, for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

“(1) The finding, on every charge upon which the accused is charged, shall be recorded and except as provided in these rules, shall be recorded as findings of “Guilty” or of “Not Guilty”.

(1A) After recording the finding on each charge, the court shall give brief reasons in support thereof.

(1B) The Judge Advocate or, if there is none, the Presiding Officer, shall record or cause to be recorded such brief reasons in the proceedings.

(1C) The above record shall be signed with indicating date by the Presiding Officer and the Judge-advocate, if any”;

(b) in rule 73, in sub-rule (1) after the words “the length of time he has been in arrest or in confinement on any previous sentence,”, the words or “censure awarded by superior authority in accordance with the Air Force Order (AFO) on the subject” shall be inserted.

- (c) in rule 108, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

“(3) A counsel who has been found guilty of contempt of court by a court of justice in India shall be disqualified to appear, act or plead on behalf of the prosecutor and accused at general and district court martial, unless he has purged himself of the contempt.

(3A) When the trial is held in any country other than India, a counsel shall be disqualified if he has been found guilty of contempt of court in that country, unless he has purged himself of the contempt.”

(d) in rule 129, in sub-rule (c) for the words, figures and brackets, “Section 476 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (8 of 1898)”, the words, figures and brackets “Section 340 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)” shall be substituted.

[F. No. Air HQ/25503/5/LGL(MF)PC-V]

ANJALI SINGH, Director

Note :— The principal rules were published *vide* S.R.O. No. 310, dated the 24th September, 1969 in the Gazette of India. The rules were subsequently amended *vide* notifications mentioned below :—

- (i) S.R.O. 358, dated 08th July, 1970
- (ii) S.R.O. 83, dated 19th December, 1971
- (iii) S.R.O. 24(E), dated 15th June, 1974
- (iv) S.R.O. 186, dated 2nd July, 1982
- (v) S.R.O. 68, dated 20th January, 1986
- (vi) S.R.O. 5(E), dated 8th November, 1990
- (vii) S.R.O. 127, dated 27th July, 1995 and
- (viii) S.R.O. 47, dated 27th February, 1997

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

का.नि.आ. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2012 है ।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में :—
- (क) खंड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—
- (4क) “आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य)” से, वैज्ञानिकों ‘च’ से परस्पर अन्तःक्रिया करने के लिए, प्रोन्नति हेतु एवं पीयर समिति को अपनी सिफारिशें देने के प्रयोजन के लिए नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है”;
- (4ख) “आन्तरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)” से प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिकों ‘च’ की निष्पादन मूल्यांकन वाली रिपोर्टों का मूल्यांकन करने एवं “आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य)” को अपनी सिफारिशें देने के लिए नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन गठित समिति, अभिप्रेत है”;
- (ख) उक्त नियम 8 के उपनियम (2) के पैरा (ख) में :—
- (क) मद (i) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—
- (क) वैज्ञानिक ‘च’ से वैज्ञानिक ‘छ’ में प्रोन्नति के लिए, अनुसूची 1ख के अधीन विनिर्दिष्ट “आन्तरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)” छानबीन निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें होंगी और वैज्ञानिकों ‘च’ के लिए औसत अंक देगी;
- (ख) “अनुसूची 1ख के अधीन विनिर्दिष्ट आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य)” वैज्ञानिकों ‘च’ से परस्पर अन्तःक्रिया करेगी और अपनी सिफारिशें पीयर समिति को देगी;
- (ख) मद (ii) में “आन्तरिक छंटनी समिति” शब्दों के स्थान पर “आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य)” शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) पैरा (ड) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—
- (ड) ऐसे वैज्ञानिकों ‘च’ जिनकी सिफारिश आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य) द्वारा की गई है, वैज्ञानिकों ‘छ’ के पद में प्रोन्नति के लिए पीयर समिति द्वारा गुणागुण, उपलब्धियों, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और प्रबन्धकीय गुणों पर विचार करने के पश्चात् की जाएगी।
- (घ) अनुसूची 1ख के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची 1ख

[नियम 8 (2) देखें]

वैज्ञानिक “च” के निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए आन्तरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक), वैज्ञानिक “च” से परस्पर अन्तःक्रिया करने के लिए आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य) एवं वैज्ञानिक “छ” के निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए आन्तरिक छंटनी समिति

आन्तरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)**(क) वैज्ञानिक “च”**

- | | | |
|------|---|----------|
| (i) | सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात वैज्ञानिक | —अध्यक्ष |
| (ii) | सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक “ज” के स्तर से नीचे का न हो | —सदस्य |

आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य)

- | | | |
|-------|--|----------|
| (i) | अध्यक्ष, भर्ती और निर्धारण केन्द्र या ऐसा व्यक्ति जिनके पास सिद्ध ज्ञान, अनुभव एवं निपुणता, इनमें से किसी भी क्षेत्र में हो, अर्थात् यथास्थिति विज्ञान या गणित या मनोविज्ञान या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान हो, जिनका नाम-निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना हो | —अध्यक्ष |
| (ii) | सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो वैज्ञानिक “ज” के स्तर से नीचे के न हों | —सदस्य |
| (iii) | सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाह्य सदस्य (एक विषय में विशेषज्ञ एवं एक प्रबंधन विशेषज्ञ) | —सदस्य |

887 9:712 -4

वैज्ञानिक “छ” को निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए आन्तरिक छंटनी समिति
(ख) वैज्ञानिक “छ”

- (i) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात वैज्ञानिक । -अध्यक्ष
- (ii) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो वैज्ञानिक जो प्रख्यात वैज्ञानिकों के स्तर से नीचे के न हों । -सदस्य

[सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/मूल्यांकन बोर्ड/आर आर/सी/पी/12]

एस. के. देव, अवर सचिव

टिप्पण : रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग II खंड 4, में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसंबर 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.नि.आ. 307, तारीख 10 अक्टूबर 1980, का.नि.आ. 196, तारीख 02 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159, तारीख 6 मई, 1983, का.नि.आ. 176, तारीख 07 अगस्त 1984, का.नि.आ. 228, तारीख 13 नवम्बर 1984, का.नि.आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186, तारीख 02 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228, तारीख 06 जून 1986, का.नि.आ. 158, तारीख 04 मई 1987, का.नि.आ. 328, तारीख 25 सितम्बर 1987, का.नि.आ. 11(अ), तारीख 10 अगस्त 1990, का.नि.आ. 1, तारीख 04 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33, तारीख 17 जनवरी 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 05 मार्च 1991, का.नि.आ. 146, तारीख 04 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 24 मार्च 1992, का.नि.आ. 125, तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 157, तारीख 26 अगस्त 1994, का.नि.आ. 34, तारीख 08 मार्च 1996, का.नि.आ. 33, तारीख 02 फरवरी 1998, का.नि.आ. 100, तारीख 30 जुलाई 1998, का.नि.आ. 119, तारीख 09 जुलाई, 1999, का.नि.आ. 51, तारीख 27 मार्च 2003, का.नि.आ. 179, तारीख 13 नवम्बर 2003, का.नि.आ. 35, तारीख 03 फरवरी 2006, का.नि.आ. 52, तारीख 22 सितम्बर 2007, का.नि.आ. 62, तारीख 29 जून 2008, का.नि.आ. 83, तारीख 05 अक्टूबर, 2008.

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd March, 2012

S.R.O. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (hereinafter referred to as principal rules) (a) after Clause (4), the following clauses shall be inserted, namely :—

(4A) “Internal Screening Committee (Main), means the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 8 for the purpose of interactions with Scientists ‘F’ for promotion and giving their recommendations to the Peer Committee”;

(4B) “Internal Screening Committee (Preliminary), means the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 8 for the purpose of evaluating the performance appraisal reports of Scientists ‘F’ for promotion and giving their recommendations to the Internal Screening Committee (Main)”;

(b) in rule 8, in sub-rule (2) in paragraph (b),—

“(ia) after item (i) the following item shall be inserted, namely,—

(A) For promotion from Scientist ‘F’ to Scientist ‘G’, Internal Screening Committee (Preliminary) specified under Schedule 1B shall screen Performance Appraisal Reports and award average of marks for the Scientists ‘F’.

(ib) The Internal Screening Committee (Main) specified under Schedule 1B shall interact with the Scientists ‘F’ and make recommendations to Peer Committee”;

(B) In item (ii) for the words “Internal Screening Committee”, the words “Internal Screening Committee (Main)” shall be substituted;

(c) For paragraph (e), the following paragraph shall be substituted, namely,—

(e) “Recommendations for promotion of Scientists ‘F’ who have been recommended by the Internal Screening Committee (Main) to Scientist ‘G’, shall be made by the Peer Committee taking into consideration the merit, achievements, personality, leadership and managerial qualities etc.”;

(d) For Schedule 1B, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“Schedule 1B

[See Rule 8 (2)]

The Internal Screening Committee (Preliminary), to review Performance Appraisal Reports of Scientist ‘F’, Internal Screening Committee (Main) for interaction with Scientists ‘F’ and Internal Screening Committee to review Performance Appraisal Reports of Scientist ‘G’

Internal Screening Committee (Preliminary)

(a) Scientist ‘F’

- | | | |
|------|---|--------------|
| (i) | Secretary, Department of Defence Research and Development or a Distinguished Scientist nominated by him. | —Chairperson |
| (ii) | Two Scientists not below the level of Scientist ‘H’ nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development. | —Members |

Internal Screening Committee (Main)

- | | | |
|-------|--|--------------|
| (i) | Chairman Recruitment and Assessment Centre or a person having proven knowledge, experience and expertise in any field namely Science or Mathematics or Psychology or Engineering or Technology or Metallurgy, as the case may be, to be nominated by the Central Government. | —Chairperson |
| (ii) | Two Scientists not below the level of Scientist ‘H’ nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development. | —Members |
| (iii) | Two external members (one subject expert and one Management Specialist) nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development. | —Members |

Internal Screening Committee to review Performance Appraisal Reports of Scientist ‘G’

(b) Scientist ‘G’

- | | | |
|------|--|--------------|
| (i) | Secretary, Department of Defence Research and Development or a Distinguished Scientist nominated by him. | —Chairperson |
| (ii) | Two Scientists not below the level of Distinguished Scientists nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development. | —Members |

[F. No. DHRD/76205/DRDS/Assessment Board/RRs/C/P/12]

S. K. DEB, Under Secy.

Note: The Defence Research and Development Service Rules were published in the Gazette of India Part-II, Section 4, vide numbers S.R.O. 8, dated the 30th December 1978, and subsequently amended vide S.R.O. 307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 6th May, 1983, S.R.O. 176, dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170, dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186, dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228, dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th September 1987, S.R.O. 11(E), dated the 10th August 1990, S.R.O. 1, dated the 4th January 1991, S.R.O. 33, dated the 17th January 1991, S.R.O. 74, dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146, dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74, dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125, dated the 29th May 1992, S.R.O. 157, dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34, dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33, dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100, dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119, dated the 9th July, 1999, S.R.O. 51, dated the 27th March 2003, S.R.O. 179, dated the 13th November, 2003, S.R.O. 35, dated the 03rd February, 2006, S.R.O. 52, dated the 22nd September 2007, S.R.O. 62, dated the 29th June, 2008 and; S.R.O. 83, dated the 05th October, 2008.